



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2003 (कार्तिक 10, 1925)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2003 (KARTIKA 10, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2003


संख्या : यू-16/53/2003-चिकित्सा-2(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (समाकरण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. जे. एम. दोषी, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 29.10.2003 से 28.10.2004 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित दरियापुर केंद्र, गुजरात के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

(डॉ.) श्रीमती सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2003

संख्या : यू-16/53/99/पी.टी.एम.आर. ११६३/चि. शा. -2१४ : कर्मचारी राज्य बीमा ११साधारण११ विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत निगम की शक्तियों महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024१जी१ दिनांक 23. 5. 1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, उप चिकित्सा आयुक्त१पश्चिमी क्षेत्र१ द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संप्रति होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

क्र. सं.	डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1.	डॉ. एस. आर. करनालकर	01. 10. 2003 से 30. 09. 2004 तक	चालिस गाँव १महाराष्ट्र१


 डॉ. श्रीमती सुमा सिंह
 चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 2003


संख्या: आर-12/19/1/2001-बीमा.2

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 14 दिसम्बर, 1980 के संकल्प के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम(साधारण) विनियम-1950 के विनियम-75 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के महानिदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 की धारा-54 व 54क के उद्देश्य व निगम के दिनांक 28.2.76 के संकल्प(यथासंशोधित) के पैरा-4 में उल्लिखित मामलों की जांच और तत्संबंधी सिफारिश करने हेतु भ्रमणशील चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है :-

1	चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल नामकुम,रांची,झारखंड	अध्यक्ष
2	विशेषज्ञ(अस्थि रोग), क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम,रांची,झारखंड	सदस्य
3	विशेषज्ञ(शल्य चिकित्सा) क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम,रांची,झारखंड	सदस्य

अध्यक्ष को यह प्राधिकार भी दिया गया है कि वे बीमाकृत व्यक्ति विशेष की विकलांगता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित होने पर, चिकित्सा विशेषज्ञों के स्थान पर अथवा अतिरिक्त सदस्य के रूप में क.रा.बी. अस्पताल, नामकुम के संबंधित विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य संस्थान के संबंधित विशेषज्ञ को भी बोर्ड में सहयोजित कर सकेंगे ।

अधिकार क्षेत्र: इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में झारखंड राज्य होगा ।


(एस. चन्द्रशेखरन)
बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 2003


संख्या: आर-12/19/1/2001-बीमा 2

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 14 दिसम्बर, 1980 के संकल्प के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम(साधारण) विनियम-1950 के विनियम-75 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम के महानिदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 की धारा-54 व 54क के उद्देश्य व निगम के दिनांक 28.2.76 के संकल्प(यथासंशोधित) के पैरा-4 में उल्लिखित मामलों की जांच और तत्संबंधी सिफारिश करने हेतु भ्रमणशील चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है :-

1	चिकित्सा अधीक्षक क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006	अध्यक्ष
2	विशेषज्ञ(अस्थि रोग) क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006	सदस्य
3	विशेषज्ञ(शल्य चिकित्सा) क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006	सदस्य

अध्यक्ष को यह प्राधिकार भी दिया गया है कि वे बीमाकृत व्यक्ति विशेष की विकलांगता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित होने पर, उपरोक्त चिकित्सा विशेषज्ञों के स्थान पर अथवा अतिरिक्त सदस्य के रूप में क.रा.बी. अस्पताल, जयपुर के संबंधित विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य संस्थान के संबंधित विशेषज्ञ को भी बोर्ड में सहयोजित कर सकेंगे।

अधिकार क्षेत्र:- इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में राजस्थान राज्य होगा।



(एस. चन्द्रशेखरन)
बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

संख्या: स्न-15/13/10/3/2003-यो. संघ वि.

कर्मचारी राज्य बीमा [सामान्य] विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 [1948 का 34] की धारा-46 [2] द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महा निदेशक ने 01 अक्टूबर, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

"जाजपुर रोड़, जाजपुर, सुकिन्दा तहसील के अन्तर्गत पदमापुर, भाटिया तथा डाला क्षेत्र के राजस्व गाँव" ।



॥आर.सी. शर्मा॥

संयुक्त निदेशक ॥यो. संघ वि.॥

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

संख्या:ए-12(11)-3/2001-स्था.1(क)-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम संख्या 34) (यथासंशोधित) की धारा 97 की उपधारा 2 के खण्ड (21) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम एतद्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक विधि सलाहकार के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:

- i. ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सहायक विधि सलाहकार) भर्ती विनियम, 2003 कहलाएंगे।
- ii. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इससे संबंधित वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :

ऐसा कोई व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका जीवन साथी जीवित है ; अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन-साथी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकेंगे।

5. ढील देने की शक्ति :


जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वे केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके, व्यक्ति की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अवशिष्ट मामले :

इन विनियमों के उपबंधों के अध्वधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों के तदनुसूची वर्ग पर लागू, समय-समय पर यथासंशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम(भर्ती) विनियम, 1965 में यथा-उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर भी लागू होंगे।

7. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।


(डॉ. अजय दुआ)
महानिदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक विधि सलाहकार के पद के भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	क्या चयन अथवा रैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या जोड़े गए सेवा के वर्षों का लाभ स्वीकार्य है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
सहायक विधि सलाहकार	01* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	ग्रुप 'क' रैर-लिपिक	10,000-325-15,200	लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक \$	हाँ
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ						
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नतों पर भी लागू होंगी	9.	10.	11.	12.	13.
#	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रतिनिधित्व (अत्यावधि सविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मोजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
					ग्रुप 'क' स्थायीकरण पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति 1) महानिदेशक-अध्यक्ष क.रा.बी.निगम 2) अपर आयुक्त (का.एवं प्रशा.) सदस्य क.रा.बी.निगम	14. संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

<p>§ टिप्पणी : 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की डील</p> <p>टिप्पणी : 2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्पा जिले का पगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख)।</p>	<p># अनिवार्य</p> <p>1 क किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि निष्णात(एल.एल.एम)अथवा समकक्ष</p> <p>ख. अर्हता प्राप्त विधिक व्यवसायी</p> <p>ग. न्यायिक सेवा में 5 वर्ष का अनुभव या अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में 5 वर्ष की प्रैक्टिस या विधिक मामलों को निपटाने का 5 वर्ष का अनुभव</p> <p>2 क किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एल.एल.बी)अथवा समकक्ष</p> <p>ख. अर्हता प्राप्त विधिक व्यवसायी</p> <p>ग. न्यायिक सेवा में 7 वर्ष का अनुभव या अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में 7 वर्ष की प्रैक्टिस या विधिक मामलों को निपटाने का 7 वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पणी : 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग विवेकानुसार अर्हताओं में डील दे सकता है।</p> <p>टिप्पणी : 2 यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित रिक्रियों भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में डील दे सकेगा।</p>	<p>## प्रतिनियुक्ति (अत्यावधि संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांख्यिक/ स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी जो/जिसने</p> <p>क (i) अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर तैनात हों ; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 8,000-13,500/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग/विभाग में 7500-12000/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा की हो ; या</p> <p>(iv) मूल संवर्ग/विभाग में 7450-11500/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा की हो ; या</p> <p>(v) मूल संवर्ग/विभाग में 6500-10500/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो ;</p> <p>और</p> <p>ख. कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हों।</p> <p>(इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/अत्यावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
---	--	---

भारतीय भेषजी परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)

शुद्धिपत्र

संख्या : 17-1/2003 - पी.सी.आई. /-10619-71

भारत के राजपत्र संख्या 26, भाग - III, खण्ड 4 दिनांक 30.6.2001 में पृष्ठ संख्या 4070 पर प्रकाशित भारतीय भेषजी परिषद् के 68 वें अधिवेशन मई 2001 में पारित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है -

पृष्ठ संख्या 4070 प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1265 में महाराष्ट्र शिक्षण समितिज महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी, निलंगा 413521 (डिस्ट्रिक्ट लातूर) के द्वितीय पैरा (2) में

के स्थान पर	पढ़ें
[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा (12 की उपधारा 2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य विज्ञान महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, आनंद विहार कॉलोनी, आनंदवल्ली, गंगपुर रोड़, नासिक-422 005, महाराष्ट्र द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।	[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य विज्ञान महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, आनंद विहार कॉलोनी, आनंदवल्ली, गंगपुर रोड़, नासिक-422 005, महाराष्ट्र, एवं रजिस्ट्रार, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, "ज्ञानतीर्थ", विष्णुपुरी, नांदेड-431 606, महाराष्ट्र, द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

भारत के राजपत्र संख्या 23, भाग - III, खण्ड 4 दिनांक 8.6.2002 में पृष्ठ संख्या 2365 पर प्रकाशित भारतीय भेषजी परिषद् के 69 वें अधिवेशन मई 2002 में पारित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है -

पृष्ठ संख्या 2365 प्रस्ताव संख्या 69/पी.सी.आई./1298 में राजीव गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नरवाल बाला, बाईपास रोड़, जम्मू - 180 006

के स्थान पर	पढ़ें												
<p>[1] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>संस्था का नाम</th><th>निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित</th><th>सत्र तक अनुमोदित</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जम्मू और कश्मीर</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>राजीव गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नरवाल बाला, बाईपास रोड़, जम्मू-180 006</td><td>60</td><td>1996-97 के लिए</td></tr> <tr> <td></td><td>40</td><td>2001-2002 से 2002-2003 तक</td></tr> </tbody> </table>	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	जम्मू और कश्मीर			राजीव गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नरवाल बाला, बाईपास रोड़, जम्मू-180 006	60	1996-97 के लिए		40	2001-2002 से 2002-2003 तक	<p>भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, राजीव गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नरवाल बाला, बाईपास रोड़, जम्मू - 180 006 (जम्मू और कश्मीर) द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को 1996-97 सत्र के लिए 60 दाखिले और 2001-2002 से 2002-2003 सत्र तक के लिए 40 दाखिले हर सत्र और सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति जम्मू और कश्मीर राज्य, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉम्प्लेक्स, विक्रम चौक, जम्मू द्वारा आयोजित डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित घोषित करती है।</p>
संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित											
जम्मू और कश्मीर													
राजीव गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नरवाल बाला, बाईपास रोड़, जम्मू-180 006	60	1996-97 के लिए											
	40	2001-2002 से 2002-2003 तक											
<p>[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति जम्मू और कश्मीर राज्य, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉम्प्लेक्स, विक्रम चौक, जम्मू, द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।</p>													

अर्चना मुद्गल

(अर्चना मुद्गल)
निबंधक-एवं-सचिव

विषय सारणी

सामान्य खाते एवं तुलन पत्र

2001 - 2002

अलीगढ़ मुस्लिम

आय एवं व्यय

(अ) अनुरक्षण

व्यय	वास्तविक आँकड़े	
1. प्रशासन :-		
वेतन	158102713	
अन्य प्रभार	17599136	
सामान्य सेवा तथा विविधि प्रभार	<u>24683112</u>	200384961
2. शैक्षिक विभाग :-		
(अ) संकाय :-		
वेतन	517054088	
अन्य प्रभार	<u>30677596</u>	547731684
(ब) महाविद्यालय :-		
वेतन	32915430	
अन्य प्रभार	<u>1601065</u>	34516495
(स) सामान्य शिक्षा केन्द्र :-		
वेतन	1694506	
अन्य प्रभार	<u>144326</u>	1838832
(द) कैरियर प्लानिंग केन्द्र :-		
वेतन	1778131	
अन्य प्रभार	<u>1225536</u>	3003667
3. परीक्षाएँ :-		
वेतन	10847822	
अन्य प्रभार	<u>18996110</u>	29843932
4. एम0 ए0 पुस्तकालय :-		
वेतन	16776366	
अन्य प्रभार	<u>14240438</u>	31016804
5. छात्रों की सुविधाएँ :-		
वेतन	10373142	
अन्य प्रभार	<u>2512001</u>	12885143
6. अधिछात्रवृत्तियाँ :-		
		3417688

विश्वविद्यालय

खाता 2001 - 2002

अनुदान खाता

आय	वास्तविक आँकड़
----	----------------

1. धर्मादा एवं अनुदान :-

(अ) नियोजन से आय 22915774

(ब) अनुदान :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1488689000
राज्य सरकार - 1488689000

2. छात्रों से प्राप्त शुल्क :-

शैक्षिक 43649295
परीक्षा 2327139
अन्य शुल्क 726091
छात्रावास 4097644 50800169

3. भवनों, भूमि एवं सम्पत्तियों से आय :-

भवन 1714782
भूमि एवं उद्यान 1530880 3245662

4. प्रकाशन :-

49374

5. तहजीबुल अखलाक/निशांत :-

14642

6. अन्य विभाग :-

भवन निर्माण विभाग के टेन्डर की बिक्री द्वारा 283900

7. विद्युत विभाग :-

विद्युत प्रदाय सेवाएँ 8599796

8. प्रकीर्ण :-

11227443

व्यय	वास्तविक आँकड़े	
7. छात्रावास :-		
वेतन	90512041	
अन्य प्रभार	8220870	98732911
8. प्रकाशन :-		
वेतन	1266183	
अन्य प्रभार	766430	2032613
9. अन्य विभाग :-		
वेतन	54098631	
अन्य प्रभार	20327736	74426367
10. सहायक सेवाएँ :-		
वेतन	12832381	
अन्य प्रभार	54633704	67466085
11. प्रकीर्ण :-		
(i) अवकाश वेतन	18136511	
(ii) अवकाश मगदीकर्ण	19546244	
(iii) अन्य भार	40506269	
(vi) वेतन का (एरियर) वकाया	9119045	
(v) दैनिक कर्मचारियों का बोनस	670144	87978213
12. विद्यालय :-		
वेतन	55393022	
अन्य प्रभार	3035686	58428708
13. भविष्य निधि एवं पेंशन :-		222628071
14. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय :-		
वेतन	98835307	
अन्य प्रभार	12328864	111164171
कुल व्यय		1587496345
आय की व्यय से अधिकता		704333
महायोग		1588200678

(एम० फारुक)
सहायक वित्त अधिकारी

(यासमून जलाल बैग)
उप वित्त अधिकारी

आय	वास्तविक आँकड़
----	----------------

9. विद्यालय :-

छात्रों से प्राप्त शुल्क 667530

छात्रावास 16680


10. प्रकीर्ण 1414452 2098662

11. आर्युविज्ञान महाविद्यालय अस्पताल :-

प्रकीर्ण प्राप्तियां 276256

महायोग

1588200678


(एस० शफीक अहमद)
वित्त अधिकारी

आय एवं व्यय

(ब) विकास

व्यय	वास्तविक अँकड़े
------	-----------------

उच्च शिक्षा एवं शोध विकास :-

1. नवम योजना :-

वेतन एवं भत्ते	14119188	
अन्य प्रभार	<u>150002</u>	14269190

2. विशेष विकास योजनाएँ :-

वेतन एवं भत्ते	1723635	
छात्रावृत्ति एवं अधिछात्रावृत्तियाँ	408739	
अन्य प्रभार	<u>8813833</u>	10946207

3. प्रकीर्ण योजनायें :-

विचार गोष्ठी परिसंवाद तथा सम्मेलन	882752	
शिक्षकों को यात्रा अनुदान	258515	
अनिर्दिष्ट अनुदान	959076	
अन्य प्रभार	<u>11205643</u>	<u>13305986</u>

योग-विकास अनुदान खाता

38521383

(यासमीन जलाल बैग)
उप विद्य. अधिकारी

खाता 2001 - 2002

अनुदान खाता

आय	वास्तविक ऑकड़
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार से सहायक अनुदान	
उच्च शिक्षा तथा शोध विकास हेतु	
1. नवम् योजना हेतु	(-) 18181258
2. विशेष विकास योजनाएँ	13837558
3. प्रकीर्ण योजनाओं-हेतु सहायक अनुदान (वि० वि० अनुदान आयोग, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा)	<u>12535170</u>
योग :-	<u>8191470</u>
आय की व्यय से अधिकता	<u>30329913</u>

योग-विकास अनुदान खाता

38521383

(एस० शफीक अहमद)
वित्त अधिकारी

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
सामान्य खाता -		
स्थायी सन्दान -		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 की धारा 7 के अन्तर्गत लगाये धन का पूँजीकृत मूल्य		3000000
स्थायी आरक्षित निधि -		
हस्तांतरित अवशेषों तथा दान का पूँजीकृत मूल्य		6050363
विशेष चल आरक्षित निधि -		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य		1040221
चल आरक्षित निधि -		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य		381051
न्यास निधि -		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य	3402195	
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष	<u>1980749</u>	5382944
प्रकीर्ण न्यास -		
अवमूल्यन निधि		5993628
भवन निधि	12325534	
अभियांत्रिक महाविद्यालय निधि	943845	
महिला महाविद्यालय निधि	<u>23560</u>	13292939
प्रकीर्ण आरक्षण एवं आकलन रोष -		
चालू व्यय निधि -		
उन कर्मचारियों का जिन्होंने निवृत्त वेतन का विकल्प लिया है उनकी भविष्य निधि की साख पर वि० वि० अंशदान का ब्याज (भवन निर्माण ऋण तथा कर्मचारी भवनों हेतु)		60434418
छात्र सेवा निधि	1436834	
अनिवार्य सामूहिक बीमा तथा बचत योजना	62256	
इतिहास की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु भ्रमत निधि	475135	
तहजीबुल अख़लाक	267154	

31 मार्च, 2002

परिसंपत	धनराशि	धनराशि
---------	--------	--------

विनियोजन -

विविध नियोजन (विनियोग) -

राजकीय प्रतिभूतियाँ एवं सावधि निक्षेप		930476192
भवन एवं भूमि		434925797
उपकरण	448483440	
वाहन	<u>4250936</u>	452734376
उपस्कर		8099731
पुस्तकें		83917294
अवमूल्यन निधि		572507
राष्ट्रीय सेवा योजना		22866

प्रकीर्ण विकलन शेष -

स्थाई अग्रिम		34688
निलम्बित खाता		116115
प्रकीर्ण विकलन सामान्य खाते (विवरण 4 के अनुसार)		2605618
बचत खाता/अल्प कालीन निक्षेप नियोजन का पूँजीकृत मूल्य		257754512

विकास अनुदान खाता -

यूनानी औषधियों में अनुसंधान (तिब्बिया कालिज) हेतु (भारत सरकार) की योजना	17482
व्यय की आय से अधिकता आय एवं व्यय खाते के अनुसार	4597488
साहित्य अनुसंधान तिब्बिया कालिज (भारत सरकार की योजना)	23602
हिफजाने सेहत, मुआलिजात एवं कुल्लियात (ए0 के0 तिब्बिया कालेज)	7291436

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

विवरण	धनराशि	धनराशि
निलम्बित प्राप्तियाँ विवरण 4 के आलग्नक के अनुसार	12219326	
अनिवार्य जमा योजना	8164	
द्वितीय प्रभार का पूँजीकृत मूल्य	22909034	
कारपस निधि	96916809	
सेवा निवृत्तियों लाभ	19869778	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त श्रोतों पर इन्सोन्टिव	748633	
अन्तर्निधि अंशिम	100712360	255625483
अनुरक्षण अनुदान खाता में आय की व्यय से अधिकता		89472534

विकास अनुदान खाता -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूँजीकृत मूल्य -

भवन	330194752	
पुस्तकें	80044692	
उपकरण	468145736	
उपसकर	7544487	
निलम्बित प्राप्तियाँ (विवरण नं० 4 के अनुसार)	2093633	
निलम्बित खाता	321252	
अन्तर्निधि अंशिम	606732	
नियोजन से आय	3944153	
उच्च श्रेणीकर्ण तशरीह-या-मुलाफुल अज्ञा विभाग (ए० के० तिब्बिया कालेज)	230679	
उच्च श्रेणीकर्ण अमराज-ए-जिश्वा विभाग (ए० के० तिब्बिया कालेज)	182351	893308467

विकास अनुदान छात्रवृत्ति खाता -

भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुदान का निक्षेप खाता	3584552	
विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति अनुदान का निक्षेप खाता	1486573	
आय की व्यय से अधिकता	1914444	6985569

निक्षेप खाता -

सरकार तथा अन्य ऐजेन्सीज द्वारा अनुदान का पूँजीकृत मूल्य -

फोर्ड फाउन्डेशन	2194321
-----------------	---------

31 मार्च, 2002

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
विकास अनुदान बचत खाता	<u>2702037</u>	14632045
ए० एम० यू० निक्षेप खाता -		
एन० आई० एच० मलेरिया योजना हवाई विश्वविद्यालय (यू० एस० ए०) के सहयोग से	24617	
प्रकीर्ण विकलन अवशेष	472533	
अनुदान पी० एल० 480 योजना	<u>8331</u>	505481
ऋण तथा अग्रिम (आलग्नक 4 के अनुसार)		12773826
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -		
अन्तर निधि अग्रिम	69154	
आयुर्विज्ञान अध्ययन हेतु अग्रिम	<u>4843</u>	73997
छात्रवृत्ति खाता -		
व्यय की आय से अधिकता		61857

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
कुवेत सरकार	100000	
ईरान के इस्लामिक गणतंत्रा द्वारा अनुदान	113000	
महामहिम शाह सउद अनुदान	950750	
छात्रावास के निर्माण (100 कमरों के हेतु)	757743	
हाजी सउद अब्दुल अजीज अल बावतेन (स्कूल के निर्माण हेतु अनुदान)	1034581	
डा० हसन कमाल (यूनियन स्कूल बिल्डिंग के निर्माण हेतु)	1466451	
श्री इशरत हुसैन उस्मानी छात्रावृत्ति हेतु	26140	
स्वर्गीय श्री मौहम्मद अमजद अली (पुस्तक हेतु)	625707	
श्री सबीह अहमद कमाली	250958	
जम्मू कश्मीर शासन द्वारा अनुदान	696820	
श्रीमती अफसरी बेगम द्वारा अनुदान	1221868	

विश्वविद्यालय के विकास कार्यों हेतु पूँजी -

दवाखाना द्वारा तिब्बिया कॉलेज का अनुदान	2922028
दन्त/आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु	6590677
यू० ए० ई० का अनुदान नवीन पाठ्यक्रम हेतु	3379102
डा० एस० फारुख अनुदान (ज़कात निधि)	124762
सुहैल अहमद अनुदान	2296
अनुदान ओल्ड बोएज एसो० कानपुर	53020
दवाखाना तिब्बिया कालिज एवं एस० एस० मार्ट से अनुदान	593267
अनुदान हाजी इब्राहीम इसमाईल	109841
श्रीमती शक्ति रईस द्वारा अनुदान	50000
डा० शंकर दयाल शर्मा का अनुदान स्वर्ण पदक हेतु	15000
श्रीमती उषा के० बवेजा अनुदान	16500
श्री खुर्शीद आलम खाँ	8000
श्री सईद उल्लाह खाँ दंत महाविद्यालय हेतु	96205
श्री एस० आर० अली जैदी अनुदान	96120
यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस	1726218
प्रो० पी० एन० कोला	154289
एच. ई. एम. ओवेद दान	200000
एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु	
भारतीयों के योगदान से बड़ी आय	12944473
दन्त कालेज	21055425

प्रकीर्ण अनुदान एवं निक्षेप खाता -

(1) स्टडीज आन माइनर फारेस्ट आयल अन्डर डा०एस०एम० उसमान(रसायन विज्ञान विभाग)	22954
(2) परियोजना नं० 644 बायोटेक्नोलोजी डा० सलाहउदीन सिद्दीकी के आधीन	1276
(2अ) बुक बैंक अभियांत्रिक महाविद्यालय	1713030
(2ब) महामहिम सैयदना बुरहानउद्दीन अनुदान एस टी हाई स्कूल	552000

31 मार्च, 2002

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
भारतीय स्टेट बैंक का संदान अर्थशास्त्रा में चेयर की स्थापना हेतु -		
आय से व्यय की अधिकता		3157
अन्तिम अवशेष -		
अनुरक्षण अनुदान खाता		74765633
ए० एम० यू० विकास अनुदान खाता		30943714
ए० एम० यू० निक्षेप खाता -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० एम० यू० शाखा		52463609
सिंडीकेट बैंक		5449
ए० एम० यू० विकास छात्रावृत्ति अनुदान खाता -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया (ए० एम० यू० शाखा, अलीगढ़)		6985569
ए० एम० यू० भविष्य निधि खाता -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० (बचत खाता एवं चालू खाता)	4684333	
डाकघर बचत बैंक खाता	2258	
इलाहाबाद बैंक ए० एम० यू० (अलीगढ़)	<u>21971</u>	4708562
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		197497
डा० वली मौहम्मद वक्फ निधि -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		68143

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
(३) जमान्तों का निक्षेप	१०२४७०५४	
(४) प्रकीर्ण आकलन अवशेष (विवरण ४ के संलग्नक के अनुसार)	३०४५०९८९	
(५) उपकुलपति निधि	२९२५८४२४	
(६) छात्र निधि, सिटी हाई स्कूल	४०५०५८२	
(७) छात्रा निधि, ए०एम०यू० गर्ल्स हाई स्कूल	६७५५४९२	
(७अ) छात्रा निधि, सिटी गर्ल्स हाई स्कूल	२४८२२९५	
(८) विकास योजना		
स्पेशल वार्ड जे० एन० एम० सी० अस्पताल	१०४४५३११	
रेडियो डाइगोनोसिस भ्रमत निधि	१८४३०८२९	१७३९८५७९८
भविष्य निधि	७९९१००६७७	
वापसी हेतु प्रॉप्तियाँ	१९६५९६	
अन्तर्निधि अग्रिम	१९४३२७९	८०१२४०५५२

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि -

दानों का पूँजीकृत मूल्य ६१८४३२४

डा० वली मोहम्मद वक्फ निधि -

दानों का पूँजीकृत मूल्य ५४६९११

आय की व्यय से अधिकता ५२९९२ ५९९९०३

स्वर्ण जयन्ती -

दानों का पूँजीकृत मूल्य २१०३९८

शेख जैद पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट -

शेख जैद के दान का पूँजीकृत मूल्य ३७६६७१०

आय की व्यय से अधिकता ६५१८३३ ४४१८५४३

परमानेंट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि -

दानों का पूँजीकृत मूल्य ७२०१८५

आय की व्यय से अधिकता ४७०३ ७२४८८८

31 मार्च, 2002

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
स्वर्ण जयन्ती निधि -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		26077
परमानेंट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि -		
सिंडीकेट बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		121151
बीबी फातिमा वक्फ -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		71540
छात्रवृत्ति खाता -		
इलाहाबाद बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		1956935
छात्रवृत्ति खाता (पिछड़ा वर्ग)		146552

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
बीबी फातिमा वक्फ -		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	121121	
आय की व्यय से अधिकता	<u>2508</u>	123629
भारतीय स्टेट बैंक का संदान -		
अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु दान का पूँजीकृत मूल्य		2956
भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम हेतु -		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त तथा निक्षेप खाता से हस्तांतरित धनराशि का पूँजीकृत मूल्य	10696202	
आय की व्यय से अधिकता	<u>18133547</u>	28829749
छात्रवृत्ति खाता (बैकवर्ड छात्र) -		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	87960	
आय की व्यय से अधिकता	<u>58592</u>	146552
छात्रवृत्ति खाता -		
छात्रवृत्तियों का पूँजीकृत मूल्य		2018792
ए० एम० यू० स्टूडेंट वेलफेयर फण्ड -		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	12433671	
आय की व्यय से अधिकता	<u>1515982</u>	13949653
अन्तिम रोकड अवशेष -		
अर्थशास्त्र में चेयर की		201
ए० एम० यू० विकास कारपस खाता -		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	2309467	
आय की व्यय से अधिकता	<u>17816</u>	2327283
शेख जेद इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलिएम तथा टेक्नोलॉजी		<u>38696</u>
महायोग		<u>2375769534</u>
(एम० फारुक) सहायक वित्त अधिकारी		(यासमीन बिलाल बैग) उप वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2002

परिसंपत्त	धनराशि	धनराशि
ए० एम० यू० स्टूडेंट		
वैलफेयर निधि -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		2344437
ए० एम० यू० विकास		
कारपस निधि -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		86201
भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम		
कर्मचारियों के वास्ते -		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		1568406

महायोग

2375769534

(एस० शफीक अहमद)
वित्त अधिकारी

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के प्राप्त एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा एवं 31 मार्च, 2002 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गयी अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की वहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार यह लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।


स्थान: इलाहाबाद
तिथि: 6.5. 2003

Sd.
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा)-प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

EMPLOYERS' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th September 2003


No. U-16/53/2002/Med.II(Guj.):— In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 23.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No.1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr.J.M. Doshi P.M.R. to function as Medical Authority for Darlapur centre Gujarat for the period of one year from 29.10.2003 to 28.10.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NW2) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.


(DR. (MRS.) S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

New Delhi, the 26th September 2003

No. U-16/53/99/PTMR/Mumbai-Med.II:- In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No.1024(G) dated 25.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below for area to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(WZ)Mumbai for the purpose medical examination of the insured persons and grant of certificates if in doubt.

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of Doctor</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1.	Dr. S.R. Karnalkar	1.10.03 to 30.9.2004	Chalisgoan(Maha)


(DR. (MRS.) S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

No. R-12/19/1/2001 Ins. II.

Dated: Sept. 2003

In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI(General) Regulations, 1950, read with the Resolution of the ESI Corporation dated 14th December, 1980, empowering the Director General to exercise such powers, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted peripatetic Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of the ESI Act, 1948 and to examine and recommend the cases under Para 4 of the Corporation's Resolutions dated 28.2.76 (as amended).

- | | |
|--|----------|
| 1. Medical Superintendent
ESIC Model Hospital,
Namkum, Ranchi, Jharkhand. | Chairman |
| 2. Specialist (Orthopaedics)
ESIC Model Hospital,
Namkum, Ranchi, Jharkhand. | Member |
| 3. Specialist(Surgery)
ESIC Model Hospital,
Namkum, Ranchi, Jharkhand. | Member |

The Chairman is authorised to co-opt any other specialist as a member of the Board in lieu of or in addition to the Specialist Members mentioned above, either from the ESI Hospital, Namkum or from some other institution if necessary, depending upon the nature of disablement from which insured person to be examined, is suffering.

Jurisdiction: The Board will have the jurisdiction over areas falling under the state of Jharkhand.


(S.CHANDRASEKHARAN)
INSURANCE COMMISSIONER

No R-12/19/1/2001 Ins. II.

Dated: Sept. 2003

In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI(General) Regulations, 1950, read with the Resolution of the ESI Corporation dated 14th December, 1980, empowering the Director General to exercise such powers, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted peripatetic Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of the ESI Act, 1948 and to examine and recommend the cases under Para 4 of the Corporation's Resolutions dated 28.2.76 (as amended).

- | | |
|--|----------|
| 1. Medical Superintendent
ESIC Model Hospital,
Laxmi Nagar, Ajmer Road,
Jaipur-302006. | Chairman |
| 2. Specialist (Orthopaedics)
ESIC Model Hospital,
Laxmi Nagar, Ajmer Road,
Jaipur-302006. | Member |
| 3. Specialist(Surgery)
ESIC Model Hospital,
Laxmi Nagar, Ajmer Road,
Jaipur-302006. | Member |

The Chairman is authorised to co-opt any other specialist as a member of the Board in lieu of or in addition to the Specialist Members mentioned above, either from the ESI Hospital, Jaipur or from some other institution if necessary, depending upon the nature of disablement from which insured person to be examined, is suffering.


Jurisdiction: The Board will have the jurisdiction over areas falling under the state of Rajasthan.


(S.CHANDRASEKHARAN)
INSURANCE COMMISSIONER

New Delhi, the 9th October 2003

No. N-15/13/10/3/2003.F&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely

"Areas comprising the revenue Villages of Padsapur, Bhatia and Dala Under Sukinda Tahasil Jajpur Road, Jajpur."


(R.C. SHARMA)
JOINT DIRECTOR (F&D)

New Delhi-110002, the 16th October, 2003

No. A-12(11)-3/2001-Estt. I(A) - In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 97 read with clause (xxi) of Sub-Section (2) and Sub-Section (2-A) of same the Section and Sub-Section (2) of Section 17 of the ESI Act, 1948 (Act No. 34 of 1948) (as amended), the Corporation hereby makes, the following Regulations regulating the method of Recruitment to the post of Assistant Legal Advisor in the ESI Corporation, namely :-

1. **SHORT TITLE & COMMENCEMENT:**

- i. These regulations may be called the ESI Corporation (Assistant Legal Advisor) Recruitment Regulations, 2003.
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION & SCALE OF PAY:**

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. **THE METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT, QUALIFICATION ETC.:**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **DISQUALIFICATION :**

No person :-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Regulations.

5. **POWER TO RELAX :**


Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations, with respect to any class or category of person.

6. **RESIDUARY MATTERS :**

Subject to the provisions of these Regulations, all other regulations and instructions, laid down in E.S.I. Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, as amended from time to time, applicable to the corresponding category of Officers in the Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these Regulations.

7. **SAVINGS :**

Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.


(Dr. AJAY DUA)
DIRECTOR GENERAL

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT LEGAL ADVISOR IN E.S.I. CORPORATION

NAME OF THE POST	NO. OF POST	CLASSIFICATION	SCALE OF PAY (Rs.)	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER BENEFIT OF ADDED YEARS OF SERVICE ADMISSIBLE	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQD. FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE & EQ. PRESCRIBED FOR DIRECTS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION IF ANY	METHOD OF RECTT. WHETHER BY DIRECT RECTT. OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION / & % OF THE POSTS TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECTT. BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION / DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC TO BE CONSULTED IN MAKING RECTT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Assistant Legal Advisor	01* (2003) *Subject to variation dependent on work load	Group 'A' Non Ministerial	10,000-325-15,200	NA	Not exceeding 40 years \$	Yes	#	NA	1 year for direct recruits	Deputation (including short term contract) failing which by Direct recruitment	#	Group 'A' DPC for considering confirmation 1) Director General, ESIC Chairman 2) Additional Commissioner (P&A), ESIC Member	Consultation with UPSC necessary.

<p>5</p> <p>Note 1 Referable to Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.</p> <p>Note 2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).</p>	<p>#</p> <p>ESSENTIAL</p> <p>I (a) LL.M from a recognised University or equivalent (b) Qualified legal Practitioner. (c) 5 years experience in Judicial service or 5 years practice as an Advocate or pleader or 5 years experience in handling legal matters.</p> <p>OR</p> <p>II (a) LL.B from a recognised University or equivalent. (b) Qualified legal Practitioner. (c) 7 years experience in Judicial service or 7 years experience as an Advocate or pleader or 7 years experience in handling legal matters.</p> <p>NOTE: 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note: 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	<p>#</p> <p>DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT)</p> <p>Officers under the Central Govt./State Govt./ Union Territories/ Public Sector Undertakings/ Statutory / Autonomous Bodies.</p> <p>(A) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department, or (ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 8000-13500/- or equivalent in the parent cadre/department, or (iii) With 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 7500-12000/- or equivalent in the parent cadre/department, or (iv) With 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 7450-11500/- or equivalent in the parent cadre/department, or (v) With 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 6500-10500/- or equivalent in the parent cadre/department,</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(B) Possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruitment as per Col. 8.</p>	<p>(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>
---	--	--	---

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT, 1948)

CORRIGENDUM

Ref.No.17-1/2003-PCI -~~10619-71~~

New Delhi-110002, the 17th October 2003

In the notification of resolution passed in the 68th meeting held in May, 2001 of the Pharmacy Council of India and published in the Gazette of India No.26 Part-III, Section 4, dt.30.6.2001, Page No.4104 the following corrigendum is issued:-


On Page No.4104, Resolution No.68/PCI/1265 in respect of Maharashtra Shikshan Samiti's Maharashtra College of Pharmacy, Nilanga 413521 (Dist.Latur) in the second para (2).

For	Read
(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Maharashtra University of Health Sciences, Anand Vihar Colony, Anandvalli, Gangapur Road, Nashik - 422 005, Maharashtra, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."	(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Maharashtra University of Health Sciences, Anand Vihar Colony, Anandvalli, Gangapur Road, Nashik - 422 005, Maharashtra <u>and</u> Registrar, Swami Ramanand Teerth Marathwada University, "Dnyanteerth", Vishnupuri, Nanded - 431 606, Maharashtra, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

In the notification of resolution, passed by 69th meeting held in May, 2002 of the Pharmacy Council of India and published in the Gazette of India No.23 Part-III, Section 4, dt.8.6.2002, Page No.2500 the following corrigendum is issued:-

On Page No.2500, Resolution No.69/PCI/1298 in respect of Rajiv Gandhi Institute of Pharmacy, Narwal Bala, Bypass Road, Jammu – 180 006

For		Read
<p>“(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :</p>		<p>In pursuance of the provisions of section 14 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted at Rajiv Gandhi Institute of Pharmacy, Narwal Bala, Bypass Road, Jammu – 180 006 (J&K.), for 1996-97 for 60 admissions and from 2001-2002 to 2002-2003 for 40 admissions in each session and D.Pharm examination conducted by the Secretary, Jammu & Kashmir State Board of Technical Education, Govt. Polytechnic Complex, Vikram Chowk, Jammu, to be an approved qualification for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.</p>
<p>Name of institution in J&K</p>	<p>For adms. limited to</p> <p>Approved upto academic session</p>	
<p>Rajiv Gandhi Instt. of Pharmacy Narwal Bala, Bypass Road Jammu –180 006</p>	<p>60</p> <p>40</p>	<p><u>For</u> 1996-97</p> <p>From 2001-2002 to 2002-2003</p>
<p>(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Secretary, Jammu & Kashmir State Board of Technical Education, Govt. Polytechnic Complex, Vikram Chowk, Jammu, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.”</p>		


(ARCHANA MUDGAL)
Registrar-cum-Secretary

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-2002

(A) MAINTENANCE GRANT ACCOUNT



EXPENDITURE	ACTUALS FOR 2001 - 2002 Rs.	Rs.	INCOME	ACTUALS FOR 2001 - 2002 Rs.	Rs.
1. ADMINISTRATION			1. ENDOWMENTS AND GRANTS		
SALARIES	158102713		INCOME FROM INVESTMENTS		22915774
OTHER CHARGES	17599136		<u>GRANTS</u>		
COMMON SERVICES & GENERAL CHARGES	24683112	200384961	UNIVERSITY GRANTS COMMISSION	1488689000	
2. ACADEMIC DEPARTMENT			STATE GOVERNMENT		1488689000
SALARIES	517054088		2. FEE FROM STUDENTS		
OTHER CHARGES	30677596	547731684	ACADEMIC	43649295	
3. COLLEGES			EXAMINATION	2327139	
SALARIES	32915430		OTHER FEES	726091	
OTHER CHARGES	1601065	34516495	HOSTELS	4097644	50800169
4. GENERAL EDUCATION CENTRE					
SALARIES	1694506				
OTHER CHARGES	144326	1838832			

1	2	3	4	5	6
5. <u>CAREER PLANNING CENTRE & PROF. COURSES</u>					
SALARIES	1778131				
OTHER CHARGES	1225536	3003667			
6. <u>EXAMINATIONS</u>					
SALARIES	10847822				3245662
OTHER CHARGES	18996110	29843932			
7. <u>M. A. LIBRARY</u>					
SALARIES	16776366				49374
OTHER CHARGES	14240438	31016804			
8. <u>STUDENTS FACILITIES</u>					
SALARIES	10373142				14642
OTHER CHARGES	2512001	12885143			
9. <u>FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS</u>					
10. <u>HOSTELS</u>					
SALARIES	90512041				283900
OTHER CHARGES	8220870	98732911			
11. <u>PUBLICATIONS</u>					
SALARIES	1266183				8599796
OTHER CHARGES	766430	2032613			
3. <u>INCOME FROM BUILDING</u>					
<u>LAND & OTHER PROPERTIES</u>					
BUILDINGS				1714782	
LANDS AND GARDENS				1530880	
4. <u>PUBLICATIONS</u>					
PUBLICATIONS					49374
5. <u>TEHZIBUL AKHLAQ / NISHANT</u>					
TEHZIBUL AKHLAQ / NISHANT					14642
6. <u>OTHER DEPARTMENTS</u>					
BUILDING DEPARTMENT					
SALE OF TENDER FORMS					283900
7. <u>ELECTRICITY DEPARTMENT</u>					
ELECTRICITY SUPPLY SERVICE					8599796

1	2	3	4	5	6
8. MISCELLANEOUS					
MISCELLANEOUS					11227443
9. SCHOOLS					
FEE FROM STUDENTS				667530	
HOSTELS				16680	
MISCELLANEOUS				<u>1414452</u>	2098662
11. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL					
MISCELLANEOUS RECEIPTS					276256
12. OTHERS DEPARTMENTS					
SALARIES	54098631				
OTHER CHARGES	<u>20327736</u>	74426367			
13. AUXILIARY SERVICES					
SALARIES	12832381				
OTHER CHARGES	<u>54633704</u>	67466085			
14. MISCELLANEOUS					
LEAVE SALARY		18136511			
ENCASHMENT OF LEAVE		19546244			
ARREARS OF PAY		9119045			
BONUS FOR DAILY WAGERS		670144			
OTHER CHARGES	40506269	87978213			
15. SCHOOLS					
SALARIES	55393022				
OTHER CHARGES	<u>3035686</u>	58428708			
16. PROVIDENT FUND & PENSION					
		222628071			

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-2002
(B) DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT

EXPENDITURE	AMOUNT Rs.	Rs.	INCOME	AMOUNT Rs.
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH.			GRANT IN AID FROM UNIVERSITY GRANTS COMMISSION/GOVERNMENT OF INDIA FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH.	
IX PLAN SCHEMES			IX PLAN SCHEMES (transferred from revenue account to capital account statement no. 1 page 45) vide UGC Letter no.F1-10/97 (CU) Dated 19.08.1998	-18181258
SALARIES & ALLOWANCES	14119188			
OTHER CHARGES	150002	14269190	SPECIAL DEVELOPMENT SCHEMES	13837558
SPECIAL DEVELOPMENT SCHEMES				
SALARIES & ALLOWANCES	1723635		GRANT IN AID FOR MISCELLANEOUS SCHEMES FROM UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA AND UTTAR PRADESH GOVERNMENT	12535170
SCHOLARSHIP & FELLOWSHIP	408739			
OTHER CHARGES	8813833	10946207		

EXPENDITURE	AMOUNT Rs.	INCOME	AMOUNT Rs.
<u>MISCELLANEOUS SCHEMES</u>			
SEMINAR / SYMPOSIUM / WORKSHOP / CONFERANCES.	882752	TOTAL :	<u>8191470</u>
TRAVEL	258515		
UNASSIGNED GRANT	959076		
OTHER CHARGES	<u>11205643</u> 13305986	EXCESS RECEIPT OVER EXPENDITURE	30329913
GRAND TOTAL :	<u>38521383</u>	GRAND TOTAL :	<u>38521383</u>
 Deputy Finance Officer (M. Strabls)		 (S. Shafiq Ahmad) Finance Officer	

<u>ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2002</u>			
LIABILITIES	AMOUNT Rs.	ASSETS	AMOUNT Rs.
<u>GENERAL FUND ACCOUNT</u>		<u>INVESTMENTS</u> (VARIOUS ACCOUNTS)	
<u>PERMANENT ENDOWMENTS</u>		<u>GOVERNMENT SECURITIES</u>	
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION RECEIVED AND INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 7 OF THE A.M.U. ACT. OF 1920 AS AMENDED	3000000	FIXED DEPOSITS	930476192
<u>PERMANENT RESERVE FUND</u>		BUILDINGS AND LANDS	434925797
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS RECEIVED AND TRANSFERS MADE	6050363	EQUIPMENT	448483440
<u>SPECIAL FLOATING RESERVE FUND</u>		VEHICLE	4250936
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS AND GRANTS	1040221	FURNITURE	8099731
<u>FLOATING RESERVE FUND</u>		BOOKS	83917294
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS ETC.	381051	DEPRECIATION FUND	572507
		NATIONAL SERVICE SCHEME	22866
		<u>MISCELLANEOUS DEBIT BALANCE</u>	
		PERMANENT ADVANCES	34688

1	2	3	4	5	6
<u>TRUST FUND</u>			SUSPENSE ACCOUNTS		116115
CAPITALISED VALUE OF THE DONATIONS ETC.	3402195		MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES AS PER ANNEXURE NO. 4		2605618
UN-UTILISED INTEREST OF THE FUND	1980749	5382944	SAVING BANK ACCOUNT (CAPITALISED VALUE OF SHORT TERM DEPOSIT)		257754512
MISCELLANEOUS FUNDS			<u>DEVELOPMENT GRANTS ACCOUNTS</u>		
DEPRECIATION FUND		5993628	GOVERNMENT OF INDIA'S SCHEME IN UNANI MEICINE AT A.K. TIBBIYA COLLEGE	17482	
BUILDING FUND	12325534		EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPTS AS PER INCOME & EXP. ACCOUNT	4597488	
ENGINEERING COLLEGE FUND	943845		GOVT. OF INDIA'S SCHEME OF LITERARY RESEARCH UNIT AT A.K. TIBBIYA COLLEGE	23602	
WOMEN'S COLLEGE FUND	23560	13292939	U. P. GOVT. POST PARTUM PROGRAMME		
<u>MISCELLANEOUS CREDITS BALANCES</u>			HIFZAN-E-SEHAT / MOALIJAT & KULLIYAT, A.K. TIBBIYA COLLEGE	7291436	
<u>CURRENT EXPENSES FUND</u>					
INTEREST ON UNIVERSITY CONTRIBUTION TOWARDS PROVIDENT FUND EARMARKED FOR CONSTRUCTION OF STAFF QUARTERS		60434418			
STUDENTS AID FUND	1436834				

1	2	3	4	5	6
COMPULSORY GROUP INSURANCE SCHEME/DEPOSIT LINKED SCHEME	62256		DEVELOPMENT GRANT SAVING BANK ACCOUNT	2702037	14632045
REVOLVING FUND FOR PUBLICATION OF BOOKS IN HISTORY DEPARTMENTS	475135		<u>A.M.U. DEPOSIT ACCOUNTS</u>		
COMPULSORY DEPOSIT SCHEME	8164		N. I. H. MALARIA SCHEME IN COLLABORATION WITH UNIVERSITY OF HAWAI U. S. A.	24617	
CAPITALISED VALUE OF DEVELOPMENT CHARGES	22909034		MISCELLANEOUS DEBIT BALANCE	472533	
CORPUS FUND	96916809		GRANT UNDER PL-480 SCHEME	8331	505481
RETIREMENT BENEFITS	19869778		LOANS AND ADVANCES AS PER STATEMENT NO. 4		12773826
TEHZIBUL AKHLAQ	267154		<u>MEDICAL COLLEGE FUND</u>		
RECOVERIES SUSPENSE AS PER ANNEXURE 4	12219326		INTER FUND ADVANCES	69154	
U.G.C. INCENTIVE FOR ADDITIONAL RESOURCES	748633		ADVANCE FOR MEDICAL STUDENTS	4843	73997
INTER FUND ADVANCES	100712360	255625483	<u>SCHOLARSHIP ACCOUNT</u>		
EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE IN MAINTENANCE GRANT ACCOUNT		89472534	EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPTS		61857

1	2	3	4	5	6
	<u>DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT</u>		<u>CHAIR IN RURAL ECONOMICS</u>		
	CAPITALISED VALUE OF THE GRANT RECEIVED FROM THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR :-		EXCESS OF EXPENDITURE OVER RECEIPTS		3157
	BUILDING	330194752	<u>CLOSING BALANCES</u>		
			MAINTENANCE GRANT ACCOUNT		74765633
	BOOKS	80044692	A.M.U. DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT		30943714
	EQUIPMENTS	468145736	<u>A.M.U. DEPOSIT ACCOUNTS</u>		
	FURNITURE	7544487	STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		52463609
	RECOVERIES SUSPENSES (AS PER ANNEXURE TO STATEMENT NO. 4)	2093633	SYNDICATE BANK, EXTENSION COUNTER		5449
	INTER FUND ADVANCES	606732	<u>PROVIDENT FUND ACCOUNTS</u>		
	INTEREST ON INVESTMENTS	3944153	S. B. ACCOUNT & CURRENT ACCOUNT	4684333	
	UPGRADATION D/O TASHREEH WA-MUNAFEUL AZA, A.K. TIBBIYA COLLEGE	230679	ALLAHABAD BANK, A.M.U. BRANCH	21971	
	UPGRADATION D/O AMRAZ-E-NISWA A. K. TIBBIYA COLLEGE	182351	POST OFFICE, SAVING BANK	2258	4708562

1	2	3	4	5	6
SUSPENSE ACCOUNT	321252	893308467	<u>MEDICAL COLLEGE FUNDS</u>		
<u>DEVELOPMENT GRANT</u> <u>SCHOLARSHIP ACCOUNT</u>			STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		197497
DEPOSIT ACCOUNT OF THE GRANTS RECEIVED FROM THE COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH	3584552		<u>Dr. WALI MOHD WAQF</u> <u>ALAL-AULAD ACCOUNT</u>		
DEPOSIT ACCOUNT OF THE GRANT RECEIVED FOR SCHOLARSHIP FROM VARIOUS AGENCIES (MISC. SCHEME)	1486573		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		68143
EXCESS OF RECEIPT OVER EXPENDITURE	1914444	6985569	<u>GOLDEN JUBILEE FUND</u>		
<u>DEPOSIT ACCOUNTS</u>			STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		26077
CAPITALISED VALUE OF THE GRANTS AND DONATIONS RECEIVED FROM :-			<u>PERMANENT ISLAMIC</u> <u>SOLIDARITY FUND</u>		
FORD FOUNDATION	2194321		SYNDICATE BANK, A.M.U. EXTENSION COUNTER		121151
KUWAIT GOVERNMENT	100000		<u>BIBI FATIMA WAQF</u>		
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN	113000		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		71540
			<u>SCHOLARSHIP ACCOUNTS</u>		
			ALLAHABAD BANK, A.M.U. BRANCH		1956935

1	2	3	4	5	6
SHAH SAUD DONATION	950750		SCHOLARSHIP ACCOUNT (BACKWARD CLASS SCHOLAR.)		146552
CONSTRUCTION OF 100 ROOMS	757743		<u>DEVELOPMENT GRANT</u> <u>SCHOLARSHIP ACCOUNT</u>		
DONATION FROM HAJI IBRAHIM ISMAIL	109841		STATE BANK OF INDIA, A.M.U. BRANCH		6985569
ENHANCED INCOME FROM N.R.I. CONTRIBUTION FOR ADMISSION TO M. B. B. S.	12944473		<u>A.M.U. STUDENTS</u> <u>WELFARE FUND</u>		
DENTAL COLLEGE	21055425		STATE BANK OF INDIA, A.M.U. BRANCH		2344437
HAJI SAUD ABDUL AZIZ AL-BABTAIN FOR CONSTRUCTION OF SCHOOL	1034581		<u>A.M.U. DEVELOPMENT</u> <u>CORPUS FUND</u>		
Dr. HASAN KAMAL (FOR MODIFICATION AND CONSTRUCTION OF UNION SCHOOL BUILDING)	1466451		STATE BANK OF INDIA, A.M.U. BRANCH		86201
DONATION FROM SHAKTI RAIS	50000		<u>REVOLVING FUND OF HOUSE</u> <u>BUILDING ADVANCE TO THE</u> <u>STAFF</u>		
DONATION FROM H.E.M.OBAID	200000		STATE BANK OF INDIA A.M.U. BRANCH		1568406

1	2	3	4	5	6
DONATION FROM U.A.E. FOR OPENING OF NEW COURSES (FOR ENGG. COLLEGE)	3379102				
DONATION FROM HOLINESS SYEDNA BURHANUDDIN FOR S. T. HIGH SCHOOL	552000				
CAPITAL FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY :-					
1. DONATION FROM DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE	2922028				
2. DONATION FOR DENTAL / MEDICAL COLLEGE	6590677				
DONATION FROM Dr. SHANKAR DAYAL SHARMA (PRESIDENT OF INDIA) FOR GOLD MEDAL	15000				
Mr. ISHRAT HUSAIN USMANI FOR SCHOLARSHIP	26140				
LATE Mr. MOHD AMJAD ALI FOR PURCHASE OF LIBRARY BOOKS	625707				
DONATION FROM S. FAROOQ (ZAKAT FUND)	124762				




1	2	3	4	5	6
Mr. SABIH AHMAD KAMALI	250958				
JAMMU & KASHMIR GOVERNMENT	696820				
AWARD IN THE NAME OF SOHAIL AHMAD	2296				
DONATION FROM AFSARI BEGUM	1221868				
DONATION FROM USHA K. BAVEJA	16500				
DONATION FROM KHURSHEED ALAM KHAN	8000				
DONATION FROM SAEEDULLAH KHAN FOR DENTAL COLLEGE	96205				
DONATION FROM S. R. ALI ZAIDI	96120				
DONATION FROM OLD BOYS ASSOCIATION, KANPUR	53020				
UNIVERSITY GUEST HOUSE (FOOD CHARGES)	1726218				
DONATION FROM DAWAKHANA TIBBIYA COLLEGE & S. S. MART	593267				

1	2	3	4	5	6
P. N. KAULA	154289				
BOYS FUND, CITY HIGH SCHOOL	4050582				
GIRLS FUND A.M.U. GIRLS HIGH SCHOOL	6755492				
CITY GIRLS HIGH SCHOOL	2482295				
DEVELOPMENT CHARGES FOR SPECIAL WARD, J. N. M. C. HOSPITAL	10445311				
BOOK BANK ENGG. COLLEGE AND TECHNOLOGY	1713030				
<u>MISCELLANEOUS GRANTS & DEPOSIT</u>					
PROJECT NO.644 DEPTT. OF BIOTECHNOLOGY UNDER Dr. SALAHUDDIN SIDDIQUI	1276				
STUDIES ON MINOR FOREST OIL SEED UNDER Dr. S. M. OSMAN, DEPTT.OF CHEMISTRY	22954				
SECURITY DEPOSIT	10247054				

1	2	3	4	5	6
MISCELLANEOUS CREDIT BALANCES AS PER ANNEXURE TO STATEMENT NO. 4	30450989				
VICE-CHANCELLOR'S FUND	29258424				
REVOLVING FUND DEPTT. OF RADIO DIAGNOSIS	18430829	173985798			
<u>PROVIDENT FUND ACCOUNT</u>					
PROVIDENT FUND	799100677				
REFUNDABLE RECEIPT	196596				
INTER FUND ADVANCES	1943279	801240552			
<u>MEDICAL COLLEGE FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION AND RECEIPTS	6184324				
<u>Dr. WALLIMOH D. WAO FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	546911				
EXCESS RECEIPTS OVER EXPENDITURE	52992	599903			


1	2	3	4	5	6
<u>GOLDEN JUBILEE FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	210398				
<u>SHEIKH ZAYED INSTITUTE OF PETROLEUM AND TECHNOLOGY</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED	3766710				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	651833	4418543			
<u>PERMANENT ISLAMIC SOLIDARITY FUND</u>					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION	720185				
EXCESS RECEIPTS OVER EXPENDITURE	4703	724888			
<u>BIBI FATIMA WAQF</u>					
CAPITALISED VALUE OF DONATION	121121				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	2508	123629			

1	2	3	4	5	6
STATE BANK OF INDIA, ENDOWMENT FOR SETTING UP A CHAIR IN RURAL ECONOMICS					
CAPITALISED VALUE OF DONATION		2956			
A.M.U. REVOLVING FUND FOR HOUSE BUILDING ADVANCE					
CAPITALISED VALUE OF THE AMOUNT RECEIVED FROM U.G.C. / TRANSFERRED FROM DEPOSIT ACCOUNT / RECOVERIES	10696202				
EXCESS RECEIPTS OVER EXPENDITURE	18133547	28829749			
SCHOLARSHIP ACCOUNTS					
CAPITALISED VALUE OF THE SCHOLARSHIPS		2018792			
A.M.U. DEV. CORPUS FUND					
CAPITALISED VALUE OF THE DONATION	2309467				
EXCESS RECEIPT OVER EXPENDITURE	17816	2327283			

1	2	3	4	5	6
SCHOLARSHIP ACCOUNTS					
(BACKWARD CLASS STUDENTS)					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED	87960				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	58592	146552			
STUDENT'S WELFARE FUND					
CAPITALISED VALUE OF DONATION RECEIVED	12433671				
EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	1515982	13949653			
CLOSING BALANCE					
CHAIR IN RURAL ECONOMICS	201				
SHEIKH ZAID INSTITUTE OF PETROLEUM & TECHNOLOGY	38696				
GRAND TOTAL :		2375769534	GRAND TOTAL :		2375769534
 (M. Farooq) Asstt. Finance Officer (Accounts)		 (Yasmin Jalal Beg) Deputy Finance Officer (Accounts)		 (S. Shafiq Ahmad) Finance Officer	

Audit Certificate

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2002 and the Balance Sheet as of 31st March, 2002 of the Aligarh Muslim University, Aligarh. I have obtained all the information and explanations that I have required and, subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of information and explanations given to me and as shown in the books of the organisation.

**Place: Allahabad****Principal Accountant General (Audit)-I
Uttar Pradesh****Date: 06.05.2003**